



पुलिस थानों में CCTV: SC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)** ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CCTV (Closed-Circuit Television) कैमरे लगाए जाएँ।

प्रमुख बिंदु

■ पृष्ठभूमि:

- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2015)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया कि मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिये हर थाने और जेल में CCTV लगाए जाएँ।
- 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने **गृह मंत्रालय (The Ministry of Home Affairs)** को जाँच के दौरान अपराध स्थल की वीडियोग्राफी का उपयोग करने हेतु एक **केंद्रीय पर्यवेक्षण निकाय (Central Oversight Body)** गठित करने को कहा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस थानों में CCTV नहीं लग पाए हैं।

■ नवीनतम दशा-नरिदेश:

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बंदियों, मुख्य द्वार, लॉक-अप, गलियारों, लॉबी तथा रसिप्शन पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ। साथ ही लॉक-अप कमरों के बाहर के क्षेत्र में भी कोई स्थान खुला नहीं छोड़ा जाए।
- सीसीटीवी सिस्टम को नाइट वज़िन से लैस किया जाना चाहिये और इसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फ़ूटेज की व्यवस्था भी होनी चाहिये। साथ ही केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये ऐसे सिस्टम खरीदना अनिवार्य होगा जिससे कम-से-कम एक साल से अधिक समय के लिये डेटा का भंडारण किया जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigations)**, **प्रवर्तन नदिशालय (Enforcement Directorate)** और **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency)** सहित उन सभी जाँच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने चाहिये जिनमें पूछताछ एवं गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है।

- पर्यवेक्षण निकाय का कार्यान्वयन राज्य और ज़िला स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिये।

■ संवैधानिक आयाम: सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान दशा-नरिदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) में नहित मौलिक अधिकार को प्रतिष्ठापित करते हैं।

- **अनुच्छेद 21:** इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 21 के वस्तुतः दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने **उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)** मामले में वस्तुतः से बताया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिये गए नरिणय के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों की सूची प्रदान की है, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
 - वधि जाने का अधिकार, नजिता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तीकरण का अधिकार, एकांत कारावास के वरिद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के वरिद्ध अधिकार, वलिंबति फाँसी के खिलाफ अधिकार, हरिसत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फाँसी के वरिद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता, सांस्कृतिक वरिसत का संरक्षण, प्रत्येक बच्चे को पूरण वकिसा का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार।

■ हरिसत में हिसा से संबधित डेटा:

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (According to National Crime Records Bureau)** के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2001-2018 के बीच इस प्रकार की 1,727 मौतें दर्ज की गईं जिनके लिये केवल 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।
- 2018 में ऐसी 70 मौतों में से केवल 4.3% मौतों के लिये ही पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था जहाँ हरिसत के दौरान पीटे जाने से मौतें हुई थीं।
- अभरिक्षा (Custodial) में मौतों के अलावा 2000-2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी दर्ज किये गए थे जिनमें केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।

■ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention Against Torture) का भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जिसके तहत राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में अत्याचार को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह देशों को अपने नागरिक उन देशों में भेजने से मना करता है, जहाँ यह आशंका होती है कि उन्हें यातना झेलनी पड़ सकती है।

■ CCTV:

- यह एक टेलीविज़न प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जाता है बल्कि निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
- **घटक:** इसमें सरिफ आधारभूत घटक शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपकरणों से नहीं जुड़े होते हैं। इनमें एक कैमरा (लेंस के साथ), केबल, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (Digital Video Recorder) या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (Network Video Recorder) और एक वीडियो मॉनिटर शामिल हैं।

■ सुरक्षा उपयोग:

- यह आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों को रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नरियंतरक है।
- न्याय के लिये सबूत उपलब्ध करने के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और इलेक्ट्रॉनिक खतरों का पता लगाने में भी CCTV का उपयोग महत्वपूर्ण है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cctv-in-police-stations-sc>

